



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 305]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 20, 2013/कार्तिक 29, 1935

No.305]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 20, 2013/KARTIKA 29, 1935

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 12 नवम्बर, 2013

सं. टीएएमपी/8/2009-आईएसएचपीएल.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतत् द्वारा इंटरनेशनल सीपोर्ट (हाल्दिया) प्राइवेट लिमिटेड के प्रचलित दरमान की वैधता इसके साथ संलग्न आदेशानुसार विस्तारित करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

सं. टीएएमपी/8/2009-आईएसएचपीएल

इंटरनेशनल सीपोर्ट्स (हाल्दिया) प्राइवेट लिमिटेड

आवेदक

गणपूर्ति

(i) श्री टी. एस. बालासुब्रमणियन, सदस्य (वित्त)

(ii) श्री चंद्र भान सिंह, सदस्य (अर्थ)

आदेश

(अक्टूबर 2013 के 29वें दिन पारित)

यह प्रकरण, इंटरनेशनल सीपोर्ट्स (हाल्दिया) प्राइवेट लिमिटेड (आईएसएचपीएल) के प्रचलित दरमान की वैधता से संबंधित है।

2. आईएसएचपीएल का प्रचलित दरमान इस प्राधिकरण द्वारा पिछली बार दिनांक 19 नवम्बर, 2011 के आदेश के माध्यम से अनुमोदित किया गया था जिसे 6 अप्रैल, 2011 को भारत का राजपत्र में अधिसूचित किया गया था वह आदेश दरमान की वैधता 31 मार्च, 2013 तक प्रदान करता है बाद में, इस प्राधिकरण ने दिनांक 9 मई, 2013 के अपने आदेश के जरिये प्रचलित दरमान की वैधता 30 सितम्बर, 2013 तक बढ़ा दी।

3. दरमान के संशोधन के लिये दिनांक 9 नवम्बर, 2012 पत्र के जरिये आईएसएचपीएल द्वारा दाखिल प्रस्ताव संबंधित पत्तन उपयोगकर्ताओं/उपयोगकर्ता संगठनों के साथ परामर्श के लिए लिया गया था। दिनांक 30 मई, 2013 के हमारे पत्र के जरिये आईएसएचपीएल से मांगी गई अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण प्रचालक से अभी प्राप्त की जानी बाकी है। इस मामले में संयुक्त सुनवाई 07 अगस्त 2013 को आयोजित की गई थी आईएसएचपीएल से अनुरोध किया गया था कि वह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर 15 सितंबर, 2013 तक प्रस्तुत कर दे और संयुक्त सुनवाई में हुई सहमति के आधार पर अनुपालना कार्यवाई करें केओपीटी और उपयोगकर्ताओं से भी अनुरोध किया गया था कि वे संयुक्त सुनवाई में जो बिंदुओं पर सहमति बनी थी, उन बिंदुओं के आधार पर कार्यवाई आरंभ करें। आईएसएचपीएल, केओपीटी और उपयोगकर्ताओं का उत्तर अभी

प्रतीक्षित है। उपरोक्त स्थिति को देखते हुए और आईएसएचपीएल, केओपीटी तथा उपयोगकर्ताओं से सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त होने के बाद उनके विश्लेषण-जांच पड़ताल हेतु अपेक्षित समय को स्वीकार करते हुए, इस प्राधिकरण के विचारार्थ इस प्रकरण को परिपक्व होने में कुछ समय लगेगा।

4. चूंकि प्रचलित दरमान की विस्तारित वैधता 30 सितंबर, 2013 को समाप्त हो गई है और अंतिम विचारार्थ इस प्रकरण को परिपक्व होने में लगने वाले समय पर विचार करते हुए यह प्राधिकरण आईएसएचपीएल के प्रचलित दरमान की वैधता को इसके समाप्त होने की तिथि से 31 दिसंबर, 2013 तक अथवा संशोधित दरमान के क्रियान्वयन की प्रभावी तिथि तक इनमें से जो भी पहले हो, विस्तारित करता है।

5. इसकी निष्पादनता की समीक्षा के दौरान 1 अप्रैल, 2013 के बाद की अवधि के लिये स्वीकार्य लागत और अनुमेय प्रतिलाभ से अधिक यदि कोई अतिरिक्त अधिशेष उभरता है तो ऐसा अतिरिक्त अधिशेष निर्धारित किये जाने वाले प्रशुल्क में पूरा-पूरा समायोजित किया जाएगा।

टी. एस. बालासुब्रमणियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन III/4/असाधारण/143/13]

## TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

### NOTIFICATION

Mumbai, the 12th November, 2013

**No. TAMP/8/2009-ISHPL.**— In exercise of the powers conferred under Sections 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing Scale of Rates at the International Seaports (Haldia) Private Limited as in the Order appended hereto.

## TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

**No. TAMP/8/2009-ISHPL**

**International Seaports (Haldia) Private Limited**

...

Applicant

### QUORUM

- (i) Shri T. S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii) Shri Chandra Bhan Singh, Member (Economic)

### ORDER

(Passed on this 29th day of October 2013)

This case relates to the extension of the validity of the existing Scale or Rates (SOR) of International Seaports (Haldia) Private Limited (ISHPL).

2. The existing SOR of ISHPL was last approved by this Authority vide Order dated 19th November 2011 which is notified in the Gazette of India on 6th April, 2011. The Order prescribes the validity of the SOR till 31st March 2013. Subsequently, this Authority vide its Order dated 9th May, 2013 extended the validity of the existing SOR till 30th September 2013.

3. The proposal filed by the ISHPL vide its letter dated 9th November, 2012 for revision of SOR was taken on consultation with the concerned port users/user organisations. The additional information / clarifications sought vide our letter dated 30th May, 2013 from ISHPL is yet to be received from the operator. Joint hearing in this case was held on 7th August, 2013. The ISHPL was requested to furnish the reply to the queries by 15th September, 2013 and to take follow-up action as agreed at the joint hearing. The KOPT and users were also requested to initiate actions based on the points agreed at the joint hearing. The reply of the ISHPL, KOPT and users is still awaited. In view of the above position and recognizing the time required to examine the information / clarifications when furnished by ISHPL, KOPT and users, it will take time for the case to mature for consideration of this Authority.

4. Since the extended validity of the existing SOR expired on 30th September, 2013 and considering the time required for this case to mature for final consideration, this Authority extends the validity of the existing SOR of the ISHPL till from the date of its expiry till 31st December, 2013 or till the effective date of implementation of the revised Scale of Rates, whichever is earlier.

5. If any additional surplus over and above the admissible cost and permissible return emerges for the period post 1st April, 2013, during the review of its performance, such additional surplus will be set off fully in the tariff to be determined.

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT-III/4/Ext/143/13]